



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 27 जनवरी, 2015/7 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-266/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 20 days' earned leave *w.e.f.* 19-1-2015 to 7-2-2015 with permission to affix Sundays falling on 18-1-2015 & 8-2-2015 respectively in favour of Ms. Sapna Pandey, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Amb, District Una, H.P.

Certified that Ms. Sapna Pandey is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sapna Pandey would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Amb, District Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th January, 2015

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kullu as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Kullu and also the Controlling Officer in respect of establishment attached in the Court of Additional District and Sessions Judge, Kullu for the purpose of salary, T.A. etc. under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Pawanjit Singh, Additional District and Sessions Judge, Kullu *w.e.f.* 31-1-2015 to 13-2-2015 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Dated: 15th January, 2015

No. HHC/Estt.3(409)/95.—06 days earned leave on and with effect from 19-01-2015 to 24-01-2015, with permission to suffix Gazetted holidays falling on 25-01-2015 & 26-01-2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Padam Dev Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Padam Dev Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001**NOTIFICATION**

Dated: the 15th January, 2015

No. HHC/Admn.3(149)/80-II.—10 days earned leave on and with effect from 09-02-2015 to 18-02-2015, with permission to prefix Sunday falling on 08-02-2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Faryad Bhatti, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Faryad Bhatti is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001**NOTIFICATION**

Dated: the 14th January, 2015

No. HHC/Estt.3(410)/95.—20 days earned leave on and with effect from 02-02-2015 to 21-02-2015, with permission to prefix Special Casual leave Ist batch commencing on and *w.e.f.* 12-01-2015 to 31-01-2015 and affix Sundays falling on 01.02.2015 and 22-02-2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Subhash Dhiman, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Dhiman is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Dhiman would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001**NOTIFICATION**

Dated: the 19th January, 2015

No. HHC/Admn.3(150)/80-II.—13 days earned leave on and with effect from 09-02-2015 to 21-02-2015, with permission to prefix Special casual leave *w.e.f.* 19-02-2015 to 07-02-2015 and

affix Sundays falling on 08-02-2015 and 22-02-2015, is hereby sanctioned, in favour of Ms. Kamla, Court Master of this Registry.

Certified that Ms. Kamla is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Ms. Kamla would have continued to officiate the same post of Court Master, but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th January, 2015

No. HHC/GAZ/14-238/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 6 days' earned leave *w.e.f.* 16-2-2015 to 21-2-2015 with permission to prefix 15 days' winter vacation falling *w.e.f.* 30-1-2015 to 13-2-2105 and Second Saturday and Sunday falling on 14-2-2015 & 15-2-2015 and to suffix Sunday falling on 22-2-2015 in favour of Shri Pawanjit Singh, Additional District and Sessions Judge, Kullu, H.P.

Certified that Shri Pawanjit Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pawanjit Singh would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge Kullu, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January, 2015

No.HHC/GAZ/14-246/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days' earned leave *w.e.f.* 29-1-2015 to 13-2-2015 with permission to prefix winter vacation falling *w.e.f.* 19-1-2015 to 28-1-2015 and to suffix Second Saturday & Sunday falling on 14-2-2015 and 15.2.2015 in favour of Shri Madan Kumar, Additional District and Sessions Judge (II), Mandi, H.P.

Certified that Shri Madan Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Madan Kumar would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (II), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th January, 2015

No. HHC/GAZ/14-220//96-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days' earned leave *w.e.f.* 14-2-2015 to 28-2-2015 with permission to prefix winter vacation falling on *w.e.f.* 22-1-2015 to 13-2-2015 and to suffix Sunday falling on 1-3-2015 in favour of Shri Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushehar, H.P.

Certified that Shri Bhupesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushehar, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 2015

संख्या यू0 डी0-ए0 (1)-5/2012.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 30-9-2014 से संलग्न अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट कतिपय स्थानीय क्षेत्रों को नगर परिषद् रामपुर, में सम्मिलित करने हेतु एक प्रस्ताव, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए तारीख 13-10-2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और विनिश्चय किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची 'क' में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को, नगर परिषद्, रामपुर में सम्मिलित करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

नगर परिषद, रामपुर की सीमाओं में मौजा कलना के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना।

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	00-17-06	353	00-03-60
2	00-01-69	354	00-05-85
3	00-36-72	355	00-01-89
7	00-01-77	356	00-03-27
8	00-15-18	357	00-00-64
9	00-07-57	358	00-13-24
323	00-03-15	359	00-00-88
328	08-33-85	360	00-10-66
329	00-02-65	361	00-01-15
330	00-44-73	362	00-01-78
331	00-05-50	363	00-05-93
332	00-02-64	1222 / 364	00-01-22
333	00-02-42	1223 / 364	00-17-92
334	00-01-05	1266 / 365	02-97-48
336	00-13-14	1225 / 366	01-87-68
337	00-11-56	1224 / 366	01-10-24
1220 / 338	00-00-54	367	00-09-79
339	00-12-13	368	00-12-53
340	00-01-49	369	00-15-15
341	00-07-28	370	00-15-85
342	00-35-72	372	00-33-60
343	00-26-41	373	00-26-88
344	00-20-38	374	00-18-40
345	00-05-61	375	00-29-98
346	00-17-18	376	00-02-53
347	00-04-86	376 / 1	00-02-55
348	00-04-05	377	00-29-89
349	00-17-54	378	00-57-78
350	00-05-56	379	00-26-14
351	00-05-23	446	00-03-54
352	00-05-16	कुल खसरा नम्बर- 61	कुल क्षेत्र-19-97-73 हेक्टेयर

नगर परिषद, रामपुर (चाक शिंगला) सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ खसरा नम्बरों की सूची।

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	12.48.23	34	00.04.18	1438	00.00.38	1474	00.26.25	1503	00.05.29	1532	00.01.08
2	02.34.64	35	00.00.29	1439	00.35.34	1475	00.22.62	1504	00.00.94	1533	00.02.20
3	00.08.67	36	03.53.05	1440	00.01.42	1476	00.09.02	1505	00.00.62	1534	00.01.66
4	00.08.67	36/1	00.07.03	1441	00.00.24	1477	00.00.70	1506	00.01.12	1535	00.00.77
5	00.04.32	37	00.27.68	1442	00.00.12	1478	00.01.33	1507	00.00.12	1536	00.00.88
6	00.10.92	38	00.00.96	1443	00.00.80	1479	00.04.01	1508	00.02.23	1537	00.00.96

7	00.02.73	39	00.02.41	1444	00.00.68	1480	00.05.77	1509	00.00.15	1538	00.01.56
8	00.02.36	40	00.01.40	1445	00.01.98	1481	00.03.21	1510	00.00.75	1539	00.00.52
9	00.23.50	41	00.34.97	1446	00.00.55	1482	00.13.36	1511	00.01.67	1540	00.00.42
10	00.08.48	42	00.43.12	1447	00.02.58	1483	00.00.66	1512	00.03.13	1541	00.01.08
11	00.04.22	43	00.01.24	1450	00.01.98	1484	00.00.66	1513	00.00.12	1542	00.00.70
12	00.07.29	44	00.00.98	1451	01.00.15	1485	00.01.08	1514	00.00.20	1543	00.01.02
13	00.04.72	45	00.01.67	1452	00.07.35	1486	00.33.86	1515	00.00.58	1544	00.04.44
14	00.03.42	46	00.01.80	1453	00.02.98	1487	00.00.21	1516	00.00.72	1545	00.04.25
15	00.13.17	47	00.00.91	1454	00.12.09	1488	00.00.77	1517	00.00.39	1546	00.01.05
16	00.12.08	48	00.17.29	1455	00.23.43	1489	00.00.36	1518	00.00.39	1547	00.02.02
17	00.08.20	49	00.10.80	1456	00.16.22	1490	00.00.66	1519	00.00.68	1548	00.02.42
18	03.83.48	1423	00.07.63	1457	00.29.06	1491	00.01.35	1520	00.00.79	1549	00.00.80
19	00.05.90	1424	00.04.69	1458	00.15.77	1492	00.04.09	1521	00.00.20	1550	00.01.19
20	01.28.26	1426	00.15.16	1459	00.31.87	1493	00.05.13	1522	00.00.24	1551	00.04.11
21	01.45.88	1427	00.17.19	1462	00.05.06	1494	00.05.17	1523	00.00.36	1552	00.03.56
22	01.74.34	1430	00.19.01	1463	00.17.05	1495	00.02.65	1524	00.00.44	1553	00.01.75
23	00.19.80	1431	00.02.86	1464	00.09.72	1496	00.01.22	1525	00.00.45	1554	00.02.04
24	03.10.17	1432	00.07.80	1468	00.19.55	1497	00.01.08	1526	00.03.39	1555	00.01.25
25	00.89.53	1433	00.09.15	1469	00.08.17	1498	00.07.71	1527	00.16.14	1556	00.02.38
27	00.00.88	1434	00.07.89	1470	00.20.78	1499	00.00.22	1528	00.00.26	1557	00.37.43
28	00.00.10	1435	00.01.42	1471	00.22.86	1500	00.00.44	1529	00.00.12	1558	00.26.79
29	00.02.75	1436	00.00.28	1472	00.09.95	1501	00.00.81	1530	00.06.99	1559	00.00.66
31	00.02.82	1437	00.15.86	1473	00.09.72	1502	00.03.50	1531	00.15.47	1566	00.00.15

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1567	00.00.59	1601	00.10.98	1632	00.00.26	1662	00.00.62	2681	00.11.96	2712	00.06.30
1568	00.04.20	1602	00.00.99	1633	00.03.74	1664	00.03.43	2682	00.02.52	2713	00.01.36
1569	00.13.76	1603	00.03.17	1634	00.15.82	1669	00.02.74	2683	00.06.74	2714	00.21.19
1570	00.01.63	1604	00.00.32	1635	00.00.38	1670	00.00.46	2684	00.02.67	2715	00.11.46
1571	00.08.02	1605	00.00.32	1636	00.00.69	1671	00.02.93	2685	00.23.45	2716	00.46.07
1572	00.00.80	1606	00.47.95	1637	00.01.44	1672	00.00.71	2686	00.30.09	2717	00.03.66
1573	00.01.12	1607	00.01.02	1638	00.01.50	1673	00.10.45	2687	00.15.80	2718	00.03.75
1574	00.68.90	1608	00.01.05	1639	00.03.25	1681	00.00.04	2688	00.08.50	2719	00.09.93
1575	00.03.28	1609	00.00.90	1640	00.03.92	1682	00.01.16	2689	00.31.51	2720	00.06.97
1576	00.04.66	1610	00.00.24	1641	00.00.70	1683	00.01.89	2690	00.11.99	2721	00.18.71
1577	00.02.60	1611	00.01.43	1642	00.01.43	1684	00.12.45	2691	00.12.31	2722	00.18.86
1578	00.54.72	1612	00.35.37	1643	00.00.28	1685	00.03.90	2692	00.11.78	2723	00.14.17
1579	00.20.96	1613	00.00.08	1644	00.00.96	1686	00.01.46	2693	00.03.59	2724	00.06.73
1580	00.77.07	1614	00.00.92	1645	00.00.72	1687	00.03.25	2694	00.16.28	2725	00.04.47
1582	03.72.26	1615	00.36.62	1646	00.02.47	1688	00.01.32	2695	00.03.34	2726	00.10.46
1583	00.57.92	1616	00.09.65	1647	00.22.99	1689	00.01.02	2696	00.07.57	2727	00.54.85
1584	00.40.86	1617	00.00.33	1648	00.00.50	1702	00.01.77	2697	00.06.84	2727/1	00.06.27
1585	00.10.25	1618	00.04.67	1649	00.13.90	1703	00.00.84	2698	00.06.58	2728	00.44.43
1586	00.02.62	1619	00.00.40	1649/1	00.03.19	1704	00.05.44	2699	00.15.13	2729	00.01.62
1587	00.03.80	1620	00.00.42	1650	00.01.07	1729	00.10.45	2700	00.03.56	2730	00.01.48
1588	00.10.82	1621	00.00.86	1651	00.08.89	1730	00.02.47	2701	00.05.49	2731	00.15.89
1589	00.01.22	1622	00.07.42	1652	00.04.63	1731	00.04.60	2702	00.00.64	2732	00.00.41
1590	00.10.97	1623	00.00.36	1653	00.05.36	1732	01.30.48	2703	00.07.12	2733	00.00.24
1591	01.47.86	1624	00.00.82	1654	00.01.99	2673	00.16.25	2704	00.01.86	2734	00.00.75
1592	00.08.73	1625	00.02.11	1655	00.05.78	2674	00.00.66	2705	00.20.30	2735	00.01.50
1593	00.40.49	1626	00.01.64	1656	00.02.86	2675	00.04.40	2706	00.00.25	2736	00.00.63
1594	00.03.59	1627	00.02.82	1657	00.07.77	2676	00.02.01	2707	00.02.90	2737	00.09.91
1595	00.35.26	1628	00.02.87	1658	00.01.28	2677	00.01.05	2708	00.08.25	2738	00.06.15
1598	00.76.14	1629	00.01.32	1659	00.00.24	2678	00.02.18	2709	00.04.22	2739	00.07.02
1599	00.11.26	1630	00.01.45	1660	00.04.14	2679	00.12.45	2710	00.07.81	2740	00.05.13
1600	00.03.73	1631	00.00.24	1661	00.00.55	2680	00.26.49	2711	00.00.77	2741	00.05.18

खसरा नम्बर	क्षेत्र
2742	03.43.46
2743	00.00.42

2744	00.05.13
2745	00.74.84
2746	01.09.45
2748	00.00.28
2749	00.01.11
2750	00.01.05
2751	00.17.64
2752	11.05.12
2753	00.11.67
2754	00.28.24
2823	02.00.80
2955/2927/2847	02.58.44
2956/927/2847	00.20.04
2957/2927/2847	02.93.62
	कुल खसरा नम्बर—382
	कुल क्षेत्र.90—03—67

नगर परिषद, रामपुर की सीमाओं में (चाक रछोली) सम्मिलित होने वाले क्षेत्रों के साथ

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	02.31.01	31	00.04.25	1136/58	00.01.02	84	00.00.76	1150/110	00.00.84	134	00.01.12
2	00.27.62	32	00.00.66	59	00.01.94	85	00.00.22	1151/110	00.00.46	135	00.01.55
3	00.00.80	33	00.57.55	60	00.02.19	86	00.00.28	111	00.00.96	136	00.00.18
4	00.08.56	34	00.00.65	61	00.01.14	87	00.01.15	1152/112	00.00.18	1159/137	00.00.66
5	00.07.83	35	00.09.93	62	00.05.99	88	00.03.38	1153/112	00.00.38	1160/137	00.09.32
6	00.02.40	36	00.12.79	62/1	00.00.27	89	00.20.31	1154/113	00.00.78	138	00.00.50
7	00.04.30	37	00.04.44	63	01.10.18	90	00.00.70	1155/113	00.00.24	139	00.00.11
8	00.06.23	38	00.15.11	64	00.01.60	91	00.00.82	114	00.00.36	140	00.00.46
9	00.00.38	39	00.01.52	65	00.01.26	92	00.00.52	115	00.00.55	141	00.00.35
10	00.03.64	40	00.02.70	66	00.00.72	93	00.01.57	116	00.00.15	1161/142	00.01.84
11	00.00.84	41	00.01.70	67	00.08.96	94	00.00.63	117	00.00.15	1162/142	00.00.98
12	00.06.75	42	00.00.32	68	00.06.60	95	00.00.84	118	00.00.56	1163/142	00.00.35
13	00.04.31	43	00.00.48	69	00.05.78	96	00.01.36	119	00.05.14	1164/142	00.01.47
14	00.10.86	44	00.00.48	70	00.11.87	97	00.02.36	1184/120	00.00.39	1165/142	00.01.58
15	00.00.20	45	00.01.62	71	00.03.41	98	00.00.84	1185/120	00.14.20	1166/142	00.01.40
16	00.04.17	46	00.01.66	72	00.02.22	99	00.01.00	121	00.05.80	1167/142	00.01.30
17	00.01.31	47	00.06.59	73	00.02.52	1143/100	00.00.78	122	00.14.01	1168/142	00.01.26
18	00.21.76	48	00.00.43	74	00.00.45	1444/100	00.22.63	123	00.00.45	1169/142	00.01.28
19	00.41.79	49	00.02.57	75	00.02.04	101	00.01.05	124	00.05.39	1170/142	00.01.14
20	00.38.63	50	00.40.50	76	00.02.88	102	00.00.16	125	00.03.63	1216/142	00.00.70
21	00.13.35	51	00.05.44	77	00.10.74	103	00.66.89	126	00.00.64	1217/142	00.00.70
22	00.00.50	52	00.05.64	78	00.02.64	1145/104	00.00.88	127	00.02.22	143	00.87.58
23	00.00.23	52/1	00.09.46	1137/79	00.01.60	1146/104	00.01.03	128	00.25.86	144	00.03.30
24	00.02.40	53	00.55.28	1138/79	00.36.30	1147/104	00.03.83	129	00.14.77	144/1	00.03.20
25	00.01.76	54	00.02.24	1139/80	00.00.90	105	00.02.44	130	00.01.84	1175/145	00.00.96
26	00.00.92	55	00.03.06	1140/80	00.00.90	106	00.01.07	131	00.03.56	1176/145	00.00.84

27	00.00.86	56	00.01.87	1141/81	00.00.90	107	00.00.20	1156/132	00.01.12	1177/145	00.01.87
28	00.11.12	57	00.00.52	1142/81	00.00.71	108	00.25.50	1157/132	00.00.77	1178/145	00.02.31
29	00.11.07	1134/58	00.01.89	82	00.01.68	1148/109	00.00.40	1158/132	00.11.70	1179/145	00.37.46
30	00.02.65	1135/58	00.02.09	83	00.02.15	1149/109	00.01.42	133	00.01.05	146	00.00.28

खसरा		खसरा		खसरा		खसरा		खसरा		खसरा	
नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र
147	00.20.62	240	00.00.58	267	00.21.79	326	00.00.16	356	00.01.75	386	00.05.29
148	00.11.57	241	00.00.28	268	00.00.26	327	00.00.30	357	00.03.54	387	00.02.13
149	00.00.98	1197/242	00.01.56	269	00.01.12	328	00.19.17	358	00.07.27	388	00.01.37
1180/150	00.02.20	1198/242	00.01.53	270	00.09.91	329	00.00.48	359	00.03.64	389	00.04.06
1181/150	00.15.41	243	00.00.65	271	00.11.36	330	00.00.48	360	00.03.62	390	00.02.93
151	00.03.11	244	00.00.64	272	00.00.53	331	00.01.50	361	00.00.25	391	00.10.35
1182/152	00.00.72	245	00.00.60	273	00.00.94	332	00.01.52	362	00.04.32	392	00.47.99
1183/152	00.17.92	246	00.00.82	274	00.01.00	333	00.01.98	263	00.00.94	393	00.01.68
153	00.01.11	247	00.00.77	275	00.00.85	334	00.01.47	364	00.00.57	394	00.00.77
153/1	00.03.73	248	00.02.98	276	00.00.88	335	00.00.86	365	00.00.48	395	00.00.76
154	00.02.37	248/	00.01.93	277	00.00.72	336	00.00.28	366	00.03.52	396	00.00.84
155	00.00.11	249	00.05.32	278	00.06.01	337	00.03.81	367	00.00.69	397	00.00.45
156	00.00.81	250	00.02.74	279	00.01.33	338	00.02.01	368	00.01.31	398	00.00.44
157	00.00.12	251	00.01.06	280	00.21.28	339	00.00.44	369	00.02.34	399	00.07.33
158	00.81.73	252	00.00.68	281	00.01.11	340	00.00.60	370	00.01.64	400	00.04.10
159	00.62.95	1199/253	00.00.84	308	00.20.34	341	00.01.20	371	00.00.48	401	00.02.25
160	00.10.42	254	00.02.50	312	00.03.35	342	00.00.90	372	00.00.98	402	00.00.52
161	00.06.88	255	00.02.25	313	00.01.30	343	00.00.82	373	00.01.35	403	00.01.86
162	00.02.34	1206/256	00.17.77	314	00.01.60	344	00.03.30	374	00.25.86	404	00.01.20
163	00.01.33	1207/256	00.16.96	315	00.19.93	345	00.05.02	375	00.05.07	405	00.00.48
164	00.14.33	257	00.00.64	316	00.17.22	346	00.00.99	376	00.22.02	406	00.02.99
165	00.10.62	258	00.00.12	317	00.08.76	347	00.00.15	377	00.12.43	407	00.00.72
228	00.38.21	259	00.00.28	318	00.00.72	348	00.12.42	378	00.01.48	408	00.01.19
233	00.00.45	260	00.20.30	319	00.01.25	349	00.00.39	379	00.01.35	409	00.00.48
234	00.00.83	261	00.08.94	320	00.01.16	350	00.02.06	380	00.01.84	410	00.00.63
235	00.00.55	262	00.01.15	321	00.06.95	351	00.00.14	381	00.01.16	411	00.00.15
236	00.00.95	263	00.07.52	322	00.01.15	352	00.00.80	382	00.01.27	412	00.03.11
237	00.00.88	264	00.05.89	323	00.05.73	353	00.01.57	383	00.01.12	413	00.00.30
238	00.00.68	265	00.07.47	324	00.03.61	354	00.02.43	384	00.01.40	414	00.00.60
239	00.00.35	266	00.00.60	325	00.01.02	355	00.02.20	385	00.02.35	415	00.00.72

खसरा		खसरा		खसरा	
नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र
416	00.02.24	446	00.00.88	474	00.00.72
417	00.01.05	447	00.00.33	475	00.03.31
418	00.00.97	448	00.00.54	476	00.13.59
419	00.03.20	449	00.03.23		
420	00.00.89	450	00.01.43		
421	00.00.94	451	00.00.88		
422	00.00.87	452	00.00.88		
423	00.01.08	453	00.00.11		
424	00.41.67	454	00.03.32		
425	00.10.71	455	00.05.64		
426	00.02.22	456	00.01.28		
427	00.02.02	457	00.00.80		

428	00.00.70	457/1	00.01.82		
429	00.01.50	458	00.02.42		
430	00.00.18	458/1	00.01.26		
431	00.01.45	459	00.11.83		
432	00.01.55	460	00.03.91		
433	00.00.24	461	00.27.18		
434	00.00.64	462	00.01.28		
435	00.01.35	463	00.01.62		
436	00.00.52	464	00.30.00		
437	00.01.30	465	00.02.20		
438	00.00.30	466	00.46.53		
439	00.00.75	467	00.08.16		
440	00.09.73	468	00.05.03		
441	00.03.38	469	00.02.52		
442	00.05.14	470	00.02.42		
443	00.01.12	471	00.02.78		
444	00.00.21	472	00.00.90		
				कुल खसरा नम्बर— 420	
445	00.01.49	473	00.01.90	कुल क्षेत्र— 25.88.59 हेक्टेयर	

नगर परिषद, रामपुर की सीमाओं में (चाक खनेरी) सम्मिलित होने वाले क्षेत्रों के साथ खसरा

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	06.04.56	29	00.17.46	53	00.14.99	84	00.06.28	112	00.05.31	175	00.04.42
2	00.00.93	30	00.12.55	54	00.01.62	85	00.01.23	113	00.05.54	176	00.09.47
3	00.00.45	30/1	00.01.44	55	00.00.55	86	00.09.02	114	00.1.44	177	00.16.24
4	00.12.41	31	02.00.00	56	00.00.40	87	00.33.28	115	00.27.59	178	00.05.74
5	00.00.44	32	00.00.78	57	00.01.26	88	00.01.40	116	00.19.56	179	00.10.19
6	00.37.98	33	00.17.80	58	00.27.65	89	00.00.56	117	05.07.20	180	00.00.60
7	00.68.53	34	00.04.94	59	00.02.31	89/1	00.14.03	132	00.64.13	181	00.00.81
8	00.01.45	35	00.25.20	60	00.10.20	90	00.04.05	132/1	00.18.74	182	00.07.38
9	00.06.98	36	00.35.46	61	00.00.80	91	00.01.94	134	00.08.08	183	00.01.03
10	00.53.18	37	00.02.73	62	00.13.09	92	00.16.18	135	00.02.63	184	00.04.41
10/1	00.07.04	38	00.05.40	63	00.03.63	93	00.13.18	136	00.24.85	185	00.13.70
11	00.06.44	39	00.01.54	64	00.05.35	94	00.14.47	137	00.02.12	186	00.01.80
12	00.04.57	39/1	00.00.85	65	00.02.89	95	00.05.04	138	00.06.62	187	00.02.27
13	00.01.66	40	00.17.12	66	00.02.70	95/1	00.03.49	139	00.27.14	188	00.02.27
14	00.20.79	41	00.09.11	67	00.25.33	96	00.10.45	156	00.11.72	189	00.10.60
15	00.03.97	42	00.01.87	68	00.36.68	97	00.15.28	157	00.10.26	190	00.07.42
16	00.01.92	42/1	00.02.04	69	00.09.53	98	00.18.08	158	00.08.71	191	00.06.63
17	00.00.54	43	00.81.80	70	00.93.78	99	00.00.22	159	00.02.09	192	00.00.55
18	00.27.10	43/1	01.35.05	70/1	00.12.76	100	00.06.22	160	00.18.20	193	00.01.24
19	00.07.67	44	00.00.45	71	00.01.90	101	00.01.82	161	00.19.35	194	00.00.93
20	08.12.00	45	00.01.90	72	00.11.39	102	00.01.58	162	00.21.62	195	00.00.84
21	00.03.08	46	00.00.95	73	00.01.78	103	00.01.02	166	00.18.72	196	00.01.42
22	00.20.84	47	00.01.16	74	00.57.47	104	00.01.56	167	00.86.78	197	00.00.48
23	00.07.29	48	00.04.44	75	00.00.24	105	00.12.52	168	00.24.03	198	00.00.50
24	00.14.34	48/1	00.05.06	76	00.01.37	106	00.28.01	169	00.05.88	199	00.00.72
24/1	00.05.10	49	00.02.24	77	00.19.68	107	00.01.48	170	00.20.20	200	00.01.36
25	00.02.16	50	00.06.20	78	00.05.49	108	00.00.32	171	00.06.24	201	00.02.23
26	00.02.94	51	00.21.05	81	00.22.04	109	00.08.23	172	00.03.32	202	00.01.08
27	00.06.46	51/1	00.04.62	82	00.05.44	110	00.02.49	173	00.05.96	203	00.02.81
28	00.07.54	52	00.42.84	83	00.26.52	111	00.06.23	174	00.06.18	204	00.08.12

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
205	00.24.20	317	00.01.50	346	00.00.52	374	00.00.98	402	00.06.37	430	00.05.47
206	00.03.18	318	00.16.90	347	00.01.86	375	00.08.30	403	00.22.98	431	00.00.90
207	00.24.10	319	00.08.99	348	00.03.81	375/1	00.07.56	404	00.13.19	432	00.04.09

208	00.02.47	320	00.02.42	349	00.00.90	376	00.03.29	405	00.02.80	433	00.14.02
209	00.15.61	321	00.07.77	350	00.03.63	377	00.16.37	406	00.16.01	434	00.31.76
210	00.00.25	322	00.01.19	351	00.07.85	378	00.01.29	407	00.04.38	435	02.07.37
211	00.21.13	323	00.09.95	351/1	00.01.94	379	00.29.16	408	00.01.77	436	00.67.94
212	00.04.72	324	00.04.60	352	00.41.02	380	00.13.98	409	00.03.15	437	00.01.48
213	00.16.17	325	00.12.31	352/1	00.57.51	381	00.14.51	410	00.01.22	438	00.04.90
214	00.14.93	326	00.02.12	353	00.01.26	382	00.05.03	411	00.30.69	439	00.04.97
215	00.01.66	327	00.34.83	354	00.21.97	383	00.06.26	412	00.46.78	440	00.05.39
216	00.03.45	656	00.30.01	355	00.44.63	383/1	00.02.59	413	00.02.02	441	00.05.88
217	00.01.51		00.00.27	356	00.01.93	384	00.04.22	414	00.01.17	442	00.01.28
218	00.03.89	329	00.05.07	357	00.02.88	385	00.09.59	415	00.01.06	443	00.02.43
219	00.07.53	330	00.08.16	358	00.20.73	386	00.03.16	416	00.01.57	444	00.06.51
220	00.22.10	331	00.06.70	359	00.12.44	387	00.01.59	417	00.13.31	445	00.00.68
221	00.21.12	332	00.03.66	360	00.01.45	388	00.15.87	418	00.47.78	446	00.00.85
222	00.18.66	333	00.02.87	361	00.00.75	389	00.09.05	418/1	00.09.78	447	00.05.43
227	00.15.54	334	00.01.37	362	00.09.69	390	00.29.97	419	00.07.72	448	00.04.94
227/1	00.02.83	335	00.06.14	363	00.03.73	391	00.15.92	840	00.05.28	449	00.01.54
230	00.11.21	336	00.03.67	364	00.05.53	392	00.02.36		00.06.31	450	00.01.03
231	00.13.44	337	00.06.44	365	00.06.45	393	00.00.80	421	00.08.43	451	00.02.40
232	00.03.37	338	00.03.14	366	00.00.36	394	00.09.94	422	00.00.82	452	00.01.93
310	00.14.68	339	00.02.58	367	00.14.43	395	00.51.26	423	00.00.18	453	00.02.43
311	00.04.83	340	00.16.96	368	00.01.48	396	00.13.63	424	00.03.68	454	00.04.17
312	00.01.32	341	00.04.25	369	00.00.82	397	00.14.01	425	00.63.11	455	00.01.62
313	00.08.23	342	00.04.48	370	00.10.24	398	00.84.28	426	00.04.36	456	00.04.72
314	00.02.34	343	00.04.31	371	00.23.32	399	00.04.79	427	01.00.06	457	00.07.49
315	00.00.04	344	00.03.17	372	00.09.89	400	00.09.12	428	00.03.18	458	00.02.21
316	00.00.42	345	00.20.45	373	00.07.78	401	00.12.96	429	00.42.36	459	00.01.11

खसरा		खसरा		खसरा		खसरा		खसरा		खसरा	
नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र	नम्बर	क्षेत्र
460	00.00.84	490	00.01.16	520	00.01.96	550	00.00.63	579	00.16.60	609	00.01.11
461	00.00.81	491	00.01.89	521	00.00.94	551	00.01.86	580	00.07.32	610	00.07.62
462	00.11.57	492	00.06.01	522	00.00.72	552	00.03.11	581	00.14.24	611	00.08.23
463	00.15.48	493	00.00.25	523	00.08.14	553	00.02.30	582	00.00.09	612	00.13.27
464	00.00.60	494	00.08.08	524	00.00.42	554	00.00.92	583	00.02.34	613	00.04.06
465	00.02.59	495	00.06.33	525	00.00.40	555	00.04.88	584	00.03.63	614	00.00.86
466	00.02.90	496	00.00.84	526	00.06.52	556	00.00.92	585	00.04.58	615	00.02.59
467	00.05.44	497	00.00.40	527	00.03.01	557	00.00.37	586	00.01.60	616	00.64.73
468	00.06.16	498	00.01.16	528	00.01.00	558	00.07.60	587	00.01.06	617	00.29.87
469	00.10.19	499	00.03.63	529	00.00.14	559	00.04.46	588	00.02.12	618	00.05.78
470	00.00.98	500	00.01.74	530	00.01.93	560	00.08.10	589	00.01.38	619	00.13.42
471	00.01.43	501	00.11.62	531	00.00.75	561	00.02.68	590	00.00.72	620	00.01.14
472	00.01.47	502	00.05.12	532	00.00.68	562	00.09.20	591	00.21.57	621	00.02.66
473	00.09.55	503	00.01.02	533	00.51.21	563	00.06.52	592	00.02.46	622	00.01.61
474	00.09.09	504	00.02.11	534	00.02.34	564	00.00.45	593	00.01.58	623	00.52.56
475	00.02.07	505	00.09.01	535	00.09.40	565	00.13.21	594	00.02.32	624	00.06.29
476	00.02.02	506	00.01.68	536	00.08.00	566	00.16.97	595	00.02.31	625	00.01.14
477	00.03.12	507	00.01.97	537	00.08.78	567	00.05.25	596	00.00.46	626	00.19.97
478	00.01.54	508	00.00.90	538	00.02.25	567/1	00.03.05	597	00.00.44	627	00.00.27
479	00.05.46	509	00.19.19	539	00.05.90	568	00.05.10	598	00.00.33	628	00.00.42
480	00.02.86	510	00.06.00	540	00.00.76	569	00.01.54	599	00.11.27	629	00.00.32
481	00.00.60	511	00.01.00	541	00.00.68	570	00.00.66	600	00.03.77	630	00.00.30
482	00.00.94	512	00.01.82	542	00.00.64	571	00.01.70	601	00.02.46	631	00.44.78
483	00.01.06	513	00.00.20	543	00.00.67	572	00.02.65	602	00.02.08	632	00.00.90
484	00.03.53	514	00.03.23	544	00.01.03	573	00.03.38	603	00.00.50	633	00.01.68

485	00.00.26	515	00.00.67	545	00.03.71	574	00.02.77	604	00.01.38	634	00.02.43
486	00.00.84	516	00.00.81	546	00.00.54	575	00.00.81	605	00.01.77	635	00.01.88
487	00.00.38	517	00.26.15	547	00.00.90	576	00.03.62	606	00.16.18	636	00.04.46
488	00.00.58	518	00.02.50	548	00.00.71	577	00.00.54	607	00.00.12	637	00.06.85
489	00.00.62	519	00.00.66	549	00.02.50	578	00.36.47	608	00.00.58	638	00.03.70

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
639	00.01.86	667	00.01.53	697	00.07.41	727	00.17.62	757	00.00.27	787	00.02.50
640	00.00.14	668	00.07.29	698	00.02.28	728	00.03.32	758	00.00.25	788	00.02.79
641	00.05.37	669	00.01.62	699	00.00.88	729	00.01.33	759	00.00.28	789	00.00.90
642	00.00.63	670	00.04.66	700	00.06.24	730	00.08.65	760	00.01.85	790	00.24.34
643	00.00.93	671	00.05.94	701	00.01.83	731	00.00.36	761	00.10.25	791	00.02.18
644	00.01.80	672	00.18.50	702	00.05.17	732	00.04.86	762	00.07.45	792	00.03.24
645	00.12.71	673	00.03.14	703	00.01.74	733	00.38.75	763	00.22.57	793	00.04.47
646	00.01.85	674	00.03.22	704	00.00.40	734	00.00.68	764	00.06.23	794	00.00.72
647	00.09.22	675	00.04.10	705	00.00.45	735	00.42.84	765	00.09.69	795	00.06.29
647/1	00.04.19	676	00.03.13	706	00.00.56	736	00.12.11	766	00.01.91	796	00.10.47
648	00.09.20	677	00.01.20	707	00.00.48	737	00.13.87	767	00.00.50	797	00.01.70
649	00.00.32	678	00.00.54	708	00.00.98	738	00.03.00	768	00.00.76	798	00.00.20
650	00.01.16	679	00.00.89	709	00.05.47	739	00.02.32	769	00.00.28	799	00.01.29
651	00.03.50	680	00.05.11	710	00.00.28	740	00.01.25	770	00.04.14	800	00.01.27
652	00.17.91	681	00.00.62	711	00.00.12	741	00.05.60	771	00.04.81	801	00.08.81
653	00.00.96	682	00.03.53	712	00.00.28	742	00.02.73	772	00.02.49	802	00.05.12
654	00.00.49	683	00.00.33	713	00.00.18	743	00.08.09	773	00.04.31	803	00.01.22
655	00.04.91	684	00.00.52	714	00.00.08	744	00.03.41	774	00.01.19	804	00.05.04
656	00.04.34	685	00.05.41	715	00.02.03	745	00.02.40	775	00.09.96	805	00.11.07
657	00.02.40	686	00.00.81	716	00.00.30	746	00.00.49	776	00.02.30	806	00.02.22
658	00.01.92	687	00.01.52	717	00.02.15	747	00.01.20	777	00.01.61	807	00.01.27
659	00.00.24	688	00.00.51	718	00.03.12	748	00.01.05	778	00.02.00	808	00.05.06
659/1	00.00.24	689	00.01.64	719	00.00.68	749	00.06.61	779	00.01.37	809	00.01.17
660	00.00.18	690	00.03.89	720	00.08.44	750	00.04.39	780	00.01.31	810	00.01.63
661	00.01.34	691	00.02.42	721	00.05.42	751	00.11.51	781	00.08.96	811	00.00.85
662	00.02.31	692	00.01.20	722	00.00.63	752	00.01.07	782	00.04.69	812	00.17.43
663	00.01.68	693	00.00.60	723	00.00.40	753	00.00.22	783	00.09.72	813	00.00.06
664	00.02.01	694	00.01.80	724	00.04.68	754	00.00.30	784	00.00.81	814	00.03.08
665	00.02.53	695	00.00.20	725	00.05.42	755	00.00.82	785	00.06.46	815	00.00.99
666	00.01.01	696	00.00.26	726	00.02.39	756	00.00.21	786	00.01.25	816	00.00.24

खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र	खसरा नम्बर	क्षेत्र
817	00.00.95	847	00.36.66	894	00.80.77	999	00.00.63	1027	00.15.87
818	00.04.36	848	00.01.27	895	00.00.68	1000	01.46.84	1028	00.25.01
819	00.00.69	849	00.05.88	972	00.76.09	1001	00.02.54	1029	00.08.77
820	00.00.52	850	00.02.73	973	00.09.93	1002	02.60.52	1030	00.05.04
821	00.18.50	851	00.18.47	974	00.01.71	1002/1	01.91.10	1031	00.24.65
822	00.09.83	852	00.06.66	975	00.03.46	1003	03.44.32	1032	00.15.16
823	00.15.49	853	00.01.28	976	00.05.57	1004	00.22.59	1034	00.04.51
824	00.31.60	854	00.19.53	977	00.02.88	1005	00.36.36	1035	00.10.07
825	00.17.00	855	00.00.48	978	00.00.82	1006	00.95.41	1036	00.16.39
826	00.11.33	856	00.01.16	979	00.04.23	1007	00.00.16	1037	01.22.85
827	00.16.63	857	00.00.24	980	00.00.54	1008	00.15.85	1038	00.06.82
828	00.10.18	858	00.01.15	981	00.01.48	1009	00.10.72	1039	00.10.86
829	00.00.74	859	00.02.72	982	00.05.08	1010	00.02.02	1040	00.02.86
830	00.05.09	860	00.01.50	983	00.02.48	1011	00.05.01	1041	00.28.70
831	00.08.48	861	00.01.50	983/1	00.01.68	1012	00.13.17	1042	00.00.48
832	00.03.45	862	00.00.52	984	00.01.18	1013	00.01.26	1043	00.08.72
833	00.06.15	863	00.00.60	985	00.00.66	1014	00.11.29	1044	00.02.70
834	00.20.35	881	00.02.10	986	00.02.99	1014/1	00.04.10	1045	00.03.58

835	00.05.67	882	00.02.15	987	00.02.85	1015	00.02.10	1046	00.02.10
836	00.01.77	883	00.01.64	988	00.04.43	1016	00.01.56	1047	00.62.13
837	00.01.01	884	00.04.73	989	00.01.31	1017	00.01.65	1049	00.04.33
838	00.00.72	885	00.02.52	990	00.02.11	1018	00.05.79	1050	00.03.66
839	00.23.05	886	00.15.82	991	00.05.34	1019	00.05.79	1051	00.00.85
840	00.01.63	887	00.08.10	992	00.05.55	1020	00.11.22	1052	00.03.27
841	00.05.43	888	00.02.72	993	00.01.69	1021	00.02.48	1053	00.03.14
842	00.01.67	889	00.02.02	994	00.01.69	1022	00.09.04	1054	00.06.87
843	00.02.69	890	00.12.18	995	00.02.52	1023	00.43.03	1072	03.00.30
844	00.02.47	891	00.01.52	996	00.06.96	1024	00.02.00	1073	00.11.43
845	00.00.75	892	00.00.48	997	00.03.63	1025	00.05.56	1074	00.05.00
846	00.01.43	893	00.24.67	998	00.03.43	1026	00.04.62		

कुल खसरा नम्बर-869 व क्षेत्र-99-86-87 हेक्टेयर

[Authoritative English text of the Government Notification No UD-A(1)-5/2012 dated -----2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd January, 2015

No. UD-A (1)-5/2012.—Whereas a proposal for inclusion of certain local areas in Municipal Council, Rampur specified in Schedule 'A' attached to this Department notification of even number dated 30-9-2014 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 13-10-2014 for inviting objections of the affected persons through Deputy Commissioner, Shimla within six weeks from the date of publication of the said notification ;

And whereas, objections received within the specified period have been considered and decided by the Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to include the local areas, as specified in Schedule 'A', in the Municipal Council, Rampur.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (U.D.).

Schedule-A

Inclusion of areas of Mauza Kalna in the limits of Municipal Council, Rampur.

Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
1	00-17-06	353	00-03-60
2	00-01-69	354	00-05-85
3	00-36-72	355	00-01-89

7	00-01-77	356	00-03-27
8	00-15-18	357	00-00-64
9	00-07-57	358	00-13-24
323	00-03-15	359	00-00-88
328	08-33-85	360	00-10-66
329	00-02-65	361	00-01-15
330	00-44-73	362	00-01-78
331	00-05-50	363	00-05-93
332	00-02-64	1222/364	00-01-22
333	00-02-42	1223/364	00-17-92
334	00-01-05	1266/365	02-97-48
336	00-13-14	1225/366	01-87-68
337	00-11-56	1224/366	01-10-24
1220/338	00-00-54	367	00-09-79
339	00-12-13	368	00-12-53
340	00-01-49	369	00-15-15
341	00-07-28	370	00-15-85
342	00-35-72	372	00-33-60
343	00-26-41	373	00-26-88
344	00-20-38	374	00-18-40
345	00-05-61	375	00-29-98
346	00-17-18	376	00-02-53
347	00-04-86	376/1	00-02-55
348	00-04-05	377	00-29-89
349	00-17-54	378	00-57-78
350	00-05-56	379	00-26-14
351	00-05-23	446	00-03-54
352	00-05-16	Total Khasra No.— 61	Total Area—19—97—73 Hac.

Inclusion of areas of Chak Shingla in the limits of Municipal Council, Rampur.

Khasra		Khasra		Khasra		Khasra		Khasra			
No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	Kh.No.	
											Area
1	12.48.23	34	00.04.18	1438	00.00.38	1474	00.26.25	1503	00.05.29	1532	00.01.08
2	02.34.64	35	00.00.29	1439	00.35.34	1475	00.22.62	1504	00.00.94	1533	00.02.20
3	00.08.67	36	03.53.05	1440	00.01.42	1476	00.09.02	1505	00.00.62	1534	00.01.66
4	00.08.67	36/1	00.07.03	1441	00.00.24	1477	00.00.70	1506	00.01.12	1535	00.00.77
5	00.04.32	37	00.27.68	1442	00.00.12	1478	00.01.33	1507	00.00.12	1536	00.00.88
6	00.10.92	38	00.00.96	1443	00.00.80	1479	00.04.01	1508	00.02.23	1537	00.00.96
7	00.02.73	39	00.02.41	1444	00.00.68	1480	00.05.77	1509	00.00.15	1538	00.01.56
8	00.02.36	40	00.01.40	1445	00.01.98	1481	00.03.21	1510	00.00.75	1539	00.00.52
9	00.23.50	41	00.34.97	1446	00.00.55	1482	00.13.36	1511	00.01.67	1540	00.00.42
10	00.08.48	42	00.43.12	1447	00.02.58	1483	00.00.66	1512	00.03.13	1541	00.01.08
11	00.04.22	43	00.01.24	1450	00.01.98	1484	00.00.66	1513	00.00.12	1542	00.00.70
12	00.07.29	44	00.00.98	1451	01.00.15	1485	00.01.08	1514	00.00.20	1543	00.01.02

13	00.04.72	45	00.01.67	1452	00.07.35	1486	00.33.86	1515	00.00.58	1544	00.04.44
14	00.03.42	46	00.01.80	1453	00.02.98	1487	00.00.21	1516	00.00.72	1545	00.04.25
15	00.13.17	47	00.00.91	1454	00.12.09	1488	00.00.77	1517	00.00.39	1546	00.01.05
16	00.12.08	48	00.17.29	1455	00.23.43	1489	00.00.36	1518	00.00.39	1547	00.02.02
17	00.08.20	49	00.10.80	1456	00.16.22	1490	00.00.66	1519	00.00.68	1548	00.02.42
18	03.83.48	1423	00.07.63	1457	00.29.06	1491	00.01.35	1520	00.00.79	1549	00.00.80
19	00.05.90	1424	00.04.69	1458	00.15.77	1492	00.04.09	1521	00.00.20	1550	00.01.19
20	01.28.26	1426	00.15.16	1459	00.31.87	1493	00.05.13	1522	00.00.24	1551	00.04.11
21	01.45.88	1427	00.17.19	1462	00.05.06	1494	00.05.17	1523	00.00.36	1552	00.03.56
22	01.74.34	1430	00.19.01	1463	00.17.05	1495	00.02.65	1524	00.00.44	1553	00.01.75
23	00.19.80	1431	00.02.86	1464	00.09.72	1496	00.01.22	1525	00.00.45	1554	00.02.04
24	03.10.17	1432	00.07.80	1468	00.19.55	1497	00.01.08	1526	00.03.39	1555	00.01.25
25	00.89.53	1433	00.09.15	1469	00.08.17	1498	00.07.71	1527	00.16.14	1556	00.02.38
27	00.00.88	1434	00.07.89	1470	00.20.78	1499	00.00.22	1528	00.00.26	1557	00.37.43
28	00.00.10	1435	00.01.42	1471	00.22.86	1500	00.00.44	1529	00.00.12	1558	00.26.79
29	00.02.75	1436	00.00.28	1472	00.09.95	1501	00.00.81	1530	00.06.99	1559	00.00.66
31	00.02.82	1437	00.15.86	1473	00.09.72	1502	00.03.50	1531	00.15.47	1566	00.00.15

Khasra No.	Area	Khasra Nos.	Area	Khsara No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
1567	00.00.59	1601	00.10.98	1632	00.00.26	1662	00.00.62	2681	00.11.96	2712	00.06.30
1568	00.04.20	1602	00.00.99	1633	00.03.74	1664	00.03.43	2682	00.02.52	2713	00.01.36
1569	00.13.76	1603	00.03.17	1634	00.15.82	1669	00.02.74	2683	00.06.74	2714	00.21.19
1570	00.01.63	1604	00.00.32	1635	00.00.38	1670	00.00.46	2684	00.02.67	2715	00.11.46
1571	00.08.02	1605	00.00.32	1636	00.00.69	1671	00.02.93	2685	00.23.45	2716	00.46.07
1572	00.00.80	1606	00.47.95	1637	00.01.44	1672	00.00.71	2686	00.30.09	2717	00.03.66
1573	00.01.12	1607	00.01.02	1638	00.01.50	1673	00.10.45	2687	00.15.80	2718	00.03.75
1574	00.68.90	1608	00.01.05	1639	00.03.25	1681	00.00.04	2688	00.08.50	2719	00.09.93
1575	00.03.28	1609	00.00.90	1640	00.03.92	1682	00.01.16	2689	00.31.51	2720	00.06.97
1576	00.04.66	1610	00.00.24	1641	00.00.70	1683	00.01.89	2690	00.11.99	2721	00.18.71
1577	00.02.60	1611	00.01.43	1642	00.01.43	1684	00.12.45	2691	00.12.31	2722	00.18.86
1578	00.54.72	1612	00.35.37	1643	00.00.28	1685	00.03.90	2692	00.11.78	2723	00.14.17
1579	00.20.96	1613	00.00.08	1644	00.00.96	1686	00.01.46	2693	00.03.59	2724	00.06.73
1580	00.77.07	1614	00.00.92	1645	00.00.72	1687	00.03.25	2694	00.16.28	2725	00.04.47
1582	03.72.26	1615	00.36.62	1646	00.02.47	1688	00.01.32	2695	00.03.34	2726	00.10.46
1583	00.57.92	1616	00.09.65	1647	00.22.99	1689	00.01.02	2696	00.07.57	2727	00.54.85
1584	00.40.86	1617	00.00.33	1648	00.00.50	1702	00.01.77	2697	00.06.84	2727/1	00.06.27
1585	00.10.25	1618	00.04.67	1649	00.13.90	1703	00.00.84	2698	00.06.58	2728	00.44.43
1586	00.02.62	1619	00.00.40	1649/1	00.03.19	1704	00.05.44	2699	00.15.13	2729	00.01.62
1587	00.03.80	1620	00.00.42	1650	00.01.07	1729	00.10.45	2700	00.03.56	2730	00.01.48
1588	00.10.82	1621	00.00.86	1651	00.08.89	1730	00.02.47	2701	00.05.49	2731	00.15.89
1589	00.01.22	1622	00.07.42	1652	00.04.63	1731	00.04.60	2702	00.00.64	2732	00.00.41
1590	00.10.97	1623	00.00.36	1653	00.05.36	1732	01.30.48	2703	00.07.12	2733	00.00.24
1591	01.47.86	1624	00.00.82	1654	00.01.99	2673	00.16.25	2704	00.01.86	2734	00.00.75
1592	00.08.73	1625	00.02.11	1655	00.05.78	2674	00.00.66	2705	00.20.30	2735	00.01.50
1593	00.40.49	1626	00.01.64	1656	00.02.86	2675	00.04.40	2706	00.00.25	2736	00.00.63
1594	00.03.59	1627	00.02.82	1657	00.07.77	2676	00.02.01	2707	00.02.90	2737	00.09.91
1595	00.35.26	1628	00.02.87	1658	00.01.28	2677	00.01.05	2708	00.08.25	2738	00.06.15
1598	00.76.14	1629	00.01.32	1659	00.00.24	2678	00.02.18	2709	00.04.22	2739	00.07.02
1599	00.11.26	1630	00.01.45	1660	00.04.14	2679	00.12.45	2710	00.07.81	2740	00.05.13
1600	00.03.73	1631	00.00.24	1661	00.00.55	2680	00.26.49	2711	00.00.77	2741	00.05.18

Khasra No.	Area
2742	03.43.46

2743	00.00.42
2744	00.05.13
2745	00.74.84
2746	01.09.45
2748	00.00.28
2749	00.01.11
2750	00.01.05
2751	00.17.64
2752	11.05.12
2753	00.11.67
2754	00.28.24
2823	02.00.80
2955/2927/2847	02.58.44
2956/927/2847	00.20.04
2957/2927/2847	02.93.62

Total Khasra Nos. 382

Total Area . 90-03-67

Inclusion of areas of Chak Racholi in the limits of Municipal Council, Rampur

Khasra No.	Area	Khasra Nos.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
1	02.31.01	31	00.04.25	1136/58	00.01.02	84	00.00.76	1150/110	00.00.84	134	00.01.12
2	00.27.62	32	00.00.66	59	00.01.94	85	00.00.22	1151/110	00.00.46	135	00.01.55
3	00.00.80	33	00.57.55	60	00.02.19	86	00.00.28	111	00.00.96	136	00.00.18
4	00.08.56	34	00.00.65	61	00.01.14	87	00.01.15	1152/112	00.00.18	1159/137	00.00.66
5	00.07.83	35	00.09.93	62	00.05.99	88	00.03.38	1153/112	00.00.38	1160/137	00.09.32
6	00.02.40	36	00.12.79	62/1	00.00.27	89	00.20.31	1154/113	00.00.78	138	00.00.50
7	00.04.30	37	00.04.44	63	01.10.18	90	00.00.70	1155/113	00.00.24	139	00.00.11
8	00.06.23	38	00.15.11	64	00.01.60	91	00.00.82	114	00.00.36	140	00.00.46
9	00.00.38	39	00.01.52	65	00.01.26	92	00.00.52	115	00.00.55	141	00.00.35
10	00.03.64	40	00.02.70	66	00.00.72	93	00.01.57	116	00.00.15	1161/142	00.01.84
11	00.00.84	41	00.01.70	67	00.08.96	94	00.00.63	117	00.00.15	1162/142	00.00.98
12	00.06.75	42	00.00.32	68	00.06.60	95	00.00.84	118	00.00.56	1163/142	00.00.35
13	00.04.31	43	00.00.48	69	00.05.78	96	00.01.36	119	00.05.14	1164/142	00.01.47
14	00.10.86	44	00.00.48	70	00.11.87	97	00.02.36	1184/120	00.00.39	1165/142	00.01.58
15	00.00.20	45	00.01.62	71	00.03.41	98	00.00.84	1185/120	00.14.20	1166/142	00.01.40
16	00.04.17	46	00.01.66	72	00.02.22	99	00.01.00	121	00.05.80	1167/142	00.01.30
17	00.01.31	47	00.06.59	73	00.02.52	1143/100	00.00.78	122	00.14.01	1168/142	00.01.26
18	00.21.76	48	00.00.43	74	00.00.45	1444/100	00.22.63	123	00.00.45	1169/142	00.01.28
19	00.41.79	49	00.02.57	75	00.02.04	101	00.01.05	124	00.05.39	1170/142	00.01.14
20	00.38.63	50	00.40.50	76	00.02.88	102	00.00.16	125	00.03.63	1216/142	00.00.70
21	00.13.35	51	00.05.44	77	00.10.74	103	00.66.89	126	00.00.64	1217/142	00.00.70
22	00.00.50	52	00.05.64	78	00.02.64	1145/104	00.00.88	127	00.02.22	143	00.87.58
23	00.00.23	52/1	00.09.46	1137/79	00.01.60	1146/104	00.01.03	128	00.25.86	144	00.03.30
24	00.02.40	53	00.55.28	1138/79	00.36.30	1147/104	00.03.83	129	00.14.77	144/1	00.03.20
25	00.01.76	54	00.02.24	1139/80	00.00.90	105	00.02.44	130	00.01.84	1175/145	00.00.96
26	00.00.92	55	00.03.06	1140/80	00.00.90	106	00.01.07	131	00.03.56	1176/145	00.00.84
27	00.00.86	56	00.01.87	1141/81	00.00.90	107	00.00.20	1156/132	00.01.12	1177/145	00.01.87
28	00.11.12	57	00.00.52	1142/81	00.00.71	108	00.25.50	1157/132	00.00.77	1178/145	00.02.31
29	00.11.07	1134/58	00.01.89	82	00.01.68	1148/109	00.00.40	1158/132	00.11.70	1179/145	00.37.46
30	00.02.65	1135/58	00.02.09	83	00.02.15	1149/109	00.01.42	133	00.01.05	146	00.00.28

Khasra No.	Area	Khasra Nos.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
147	00.20.62	240	00.00.58	267	00.21.79	326	00.00.16	356	00.01.75	386	00.05.29
148	00.11.57	241	00.00.28	268	00.00.26	327	00.00.30	357	00.03.54	387	00.02.13

149	00.00.98	1197/242	00.01.56	269	00.01.12	328	00.19.17	358	00.07.27	388	00.01.37
1180/150	00.02.20	1198/242	00.01.53	270	00.09.91	329	00.00.48	359	00.03.64	389	00.04.06
1181/150	00.15.41	243	00.00.65	271	00.11.36	330	00.00.48	360	00.03.62	390	00.02.93
151	00.03.11	244	00.00.64	272	00.00.53	331	00.01.50	361	00.00.25	391	00.10.35
1182/152	00.00.72	245	00.00.60	273	00.00.94	332	00.01.52	362	00.04.32	392	00.47.99
1183/152	00.17.92	246	00.00.82	274	00.01.00	333	00.01.98	263	00.00.94	393	00.01.68
153	00.01.11	247	00.00.77	275	00.00.85	334	00.01.47	364	00.00.57	394	00.00.77
153/1	00.03.73	248	00.02.98	276	00.00.88	335	00.00.86	365	00.00.48	395	00.00.76
154	00.02.37	248/	00.01.93	277	00.00.72	336	00.00.28	366	00.03.52	396	00.00.84
155	00.00.11	249	00.05.32	278	00.06.01	337	00.03.81	367	00.00.69	397	00.00.45
156	00.00.81	250	00.02.74	279	00.01.33	338	00.02.01	368	00.01.31	398	00.00.44
157	00.00.12	251	00.01.06	280	00.21.28	339	00.00.44	369	00.02.34	399	00.07.33
158	00.81.73	252	00.00.68	281	00.01.11	340	00.00.60	370	00.01.64	400	00.04.10
159	00.62.95	1199/253	00.00.84	308	00.20.34	341	00.01.20	371	00.00.48	401	00.02.25
160	00.10.42	254	00.02.50	312	00.03.35	342	00.00.90	372	00.00.98	402	00.00.52
161	00.06.88	255	00.02.25	313	00.01.30	343	00.00.82	373	00.01.35	403	00.01.86
162	00.02.34	1206/256	00.17.77	314	00.01.60	344	00.03.30	374	00.25.86	404	00.01.20
163	00.01.33	1207/256	00.16.96	315	00.19.93	345	00.05.02	375	00.05.07	405	00.00.48
164	00.14.33	257	00.00.64	316	00.17.22	346	00.00.99	376	00.22.02	406	00.02.99
165	00.10.62	258	00.00.12	317	00.08.76	347	00.00.15	377	00.12.43	407	00.00.72
228	00.38.21	259	00.00.28	318	00.00.72	348	00.12.42	378	00.01.48	408	00.01.19
233	00.00.45	260	00.20.30	319	00.01.25	349	00.00.39	379	00.01.35	409	00.00.48
234	00.00.83	261	00.08.94	320	00.01.16	350	00.02.06	380	00.01.84	410	00.00.63
235	00.00.55	262	00.01.15	321	00.06.95	351	00.00.14	381	00.01.16	411	00.00.15
236	00.00.95	263	00.07.52	322	00.01.15	352	00.00.80	382	00.01.27	412	00.03.11
237	00.00.88	264	00.05.89	323	00.05.73	353	00.01.57	383	00.01.12	413	00.00.30
238	00.00.68	265	00.07.47	324	00.03.61	354	00.02.43	384	00.01.40	414	00.00.60
239	00.00.35	266	00.00.60	325	00.01.02	355	00.02.20	385	00.02.35	415	00.00.72

Khasra		Khasra		Khsara	
No.	Area	Nos.	Area	No.	Area
416	00.02.24	446	00.00.88	474	00.00.72
417	00.01.05	447	00.00.33	475	00.03.31
418	00.00.97	448	00.00.54	476	00.13.59
419	00.03.20	449	00.03.23		
420	00.00.89	450	00.01.43		
421	00.00.94	451	00.00.88		
422	00.00.87	452	00.00.88		
423	00.01.08	453	00.00.11		
424	00.41.67	454	00.03.32		
425	00.10.71	455	00.05.64		
426	00.02.22	456	00.01.28		
427	00.02.02	457	00.00.80		
428	00.00.70	457/1	00.01.82		
429	00.01.50	458	00.02.42		
430	00.00.18	458/1	00.01.26		
431	00.01.45	459	00.11.83		
432	00.01.55	460	00.03.91		
433	00.00.24	461	00.27.18		
434	00.00.64	462	00.01.28		
435	00.01.35	463	00.01.62		
436	00.00.52	464	00.30.00		
437	00.01.30	465	00.02.20		

438	00.00.30	466	00.46.53		
439	00.00.75	467	00.08.16		
440	00.09.73	468	00.05.03		
441	00.03.38	469	00.02.52		
442	00.05.14	470	00.02.42		
443	00.01.12	471	00.02.78		
444	00.00.21	472	00.00.90		
					Total Khasra No. 420
445	00.01.49	473	00.01.90		Total Area 25-88-59

Inclusion of areas of Chak Khaneri in the limits of Municipal Council, Rampur.

Khasra No.	Area	Khasra Nos.	Area	Khsara No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
1	06.04.56	29	00.17.46	53	00.14.99	84	00.06.28	112	00.05.31	175	00.04.42
2	00.00.93	30	00.12.55	54	00.01.62	85	00.01.23	113	00.05.54	176	00.09.47
3	00.00.45	30/1	00.01.44	55	00.00.55	86	00.09.02	114	00.1.44	177	00.16.24
4	00.12.41	31	02.00.00	56	00.00.40	87	00.33.28	115	00.27.59	178	00.05.74
5	00.00.44	32	00.00.78	57	00.01.26	88	00.01.40	116	00.19.56	179	00.10.19
6	00.37.98	33	00.17.80	58	00.27.65	89	00.00.56	117	05.07.20	180	00.00.60
7	00.68.53	34	00.04.94	59	00.02.31	89/1	00.14.03	132	00.64.13	181	00.00.81
8	00.01.45	35	00.25.20	60	00.10.20	90	00.04.05	132/1	00.18.74	182	00.07.38
9	00.06.98	36	00.35.46	61	00.00.80	91	00.01.94	134	00.08.08	183	00.01.03
10	00.53.18	37	00.02.73	62	00.13.09	92	00.16.18	135	00.02.63	184	00.04.41
10/1	00.07.04	38	00.05.40	63	00.03.63	93	00.13.18	136	00.24.85	185	00.13.70
11	00.06.44	39	00.01.54	64	00.05.35	94	00.14.47	137	00.02.12	186	00.01.80
12	00.04.57	39/1	00.00.85	65	00.02.89	95	00.05.04	138	00.06.62	187	00.02.27
13	00.01.66	40	00.17.12	66	00.02.70	95/1	00.03.49	139	00.27.14	188	00.02.27
14	00.20.79	41	00.09.11	67	00.25.33	96	00.10.45	156	00.11.72	189	00.10.60
15	00.03.97	42	00.01.87	68	00.36.68	97	00.15.28	157	00.10.26	190	00.07.42
16	00.01.92	42/1	00.02.04	69	00.09.53	98	00.18.08	158	00.08.71	191	00.06.63
17	00.00.54	43	00.81.80	70	00.93.78	99	00.00.22	159	00.02.09	192	00.00.55
18	00.27.10	43/1	01.35.05	70/1	00.12.76	100	00.06.22	160	00.18.20	193	00.01.24
19	00.07.67	44	00.00.45	71	00.01.90	101	00.01.82	161	00.19.35	194	00.00.93
20	08.12.00	45	00.01.90	72	00.11.39	102	00.01.58	162	00.21.62	195	00.00.84
21	00.03.08	46	00.00.95	73	00.01.78	103	00.01.02	166	00.18.72	196	00.01.42
22	00.20.84	47	00.01.16	74	00.57.47	104	00.01.56	167	00.86.78	197	00.00.48
23	00.07.29	48	00.04.44	75	00.00.24	105	00.12.52	168	00.24.03	198	00.00.50
24	00.14.34	48/1	00.05.06	76	00.01.37	106	00.28.01	169	00.05.88	199	00.00.72
24/1	00.05.10	49	00.02.24	77	00.19.68	107	00.01.48	170	00.20.20	200	00.01.36
25	00.02.16	50	00.06.20	78	00.05.49	108	00.00.32	171	00.06.24	201	00.02.23
26	00.02.94	51	00.21.05	81	00.22.04	109	00.08.23	172	00.03.32	202	00.01.08
27	00.06.46	51/1	00.04.62	82	00.05.44	110	00.02.49	173	00.05.96	203	00.02.81
28	00.07.54	52	00.42.84	83	00.26.52	111	00.06.23	174	00.06.18	204	00.08.12

Khasra No.	Area	Khasra Nos.	Area	Khsara No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
205	00.24.20	317	00.01.50	346	00.00.52	374	00.00.98	402	00.06.37	430	00.05.47
206	00.03.18	318	00.16.90	347	00.01.86	375	00.08.30	403	00.22.98	431	00.00.90
207	00.24.10	319	00.08.99	348	00.03.81	375/1	00.07.56	404	00.13.19	432	00.04.09
208	00.02.47	320	00.02.42	349	00.00.90	376	00.03.29	405	00.02.80	433	00.14.02
209	00.15.61	321	00.07.77	350	00.03.63	377	00.16.37	406	00.16.01	434	00.31.76
210	00.00.25	322	00.01.19	351	00.07.85	378	00.01.29	407	00.04.38	435	02.07.37
211	00.21.13	323	00.09.95	351/1	00.01.94	379	00.29.16	408	00.01.77	436	00.67.94
212	00.04.72	324	00.04.60	352	00.41.02	380	00.13.98	409	00.03.15	437	00.01.48
213	00.16.17	325	00.12.31	352/1	00.57.51	381	00.14.51	410	00.01.22	438	00.04.90
214	00.14.93	326	00.02.12	353	00.01.26	382	00.05.03	411	00.30.69	439	00.04.97
215	00.01.66	327	00.34.83	354	00.21.97	383	00.06.26	412	00.46.78	440	00.05.39

216	00.03.45	328	00.30.01	355	00.44.63	383/1	00.02.59	413	00.02.02	441	00.05.88
217	00.01.51	328/1	00.00.27	356	00.01.93	384	00.04.22	414	00.01.17	442	00.01.28
218	00.03.89	329	00.05.07	357	00.02.88	385	00.09.59	415	00.01.06	443	00.02.43
219	00.07.53	330	00.08.16	358	00.20.73	386	00.03.16	416	00.01.57	444	00.06.51
220	00.22.10	331	00.06.70	359	00.12.44	387	00.01.59	417	00.13.31	445	00.00.68
221	00.21.12	332	00.03.66	360	00.01.45	388	00.15.87	418	00.47.78	446	00.00.85
222	00.18.66	333	00.02.87	361	00.00.75	389	00.09.05	418/1	00.09.78	447	00.05.43
227	00.15.54	334	00.01.37	362	00.09.69	390	00.29.97	419	00.07.72	448	00.04.94
227/1	00.02.83	335	00.06.14	363	00.03.73	391	00.15.92	420	00.05.28	449	00.01.54
230	00.11.21	336	00.03.67	364	00.05.53	392	00.02.36	420/1	00.06.31	450	00.01.03
231	00.13.44	337	00.06.44	365	00.06.45	393	00.00.80	421	00.08.43	451	00.02.40
232	00.03.37	338	00.03.14	366	00.00.36	394	00.09.94	422	00.00.82	452	00.01.93
310	00.14.68	339	00.02.58	367	00.14.43	395	00.51.26	423	00.00.18	453	00.02.43
311	00.04.83	340	00.16.96	368	00.01.48	396	00.13.63	424	00.03.68	454	00.04.17
312	00.01.32	341	00.04.25	369	00.00.82	397	00.14.01	425	00.63.11	455	00.01.62
313	00.08.23	342	00.04.48	370	00.10.24	398	00.84.28	426	00.04.36	456	00.04.72
314	00.02.34	343	00.04.31	371	00.23.32	399	00.04.79	427	01.00.06	457	00.07.49
315	00.00.04	344	00.03.17	372	00.09.89	400	00.09.12	428	00.03.18	458	00.02.21
316	00.00.42	345	00.20.45	373	00.07.78	401	00.12.96	429	00.42.36	459	00.01.11

Khasra		Khasra		Khsara		Khasra		Khasra		Khasra	
No.	Area	Nos.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area
460	00.00.84	490	00.01.16	520	00.01.96	550	00.00.63	579	00.16.60	609	00.01.11
461	00.00.81	491	00.01.89	521	00.00.94	551	00.01.86	580	00.07.32	610	00.07.62
462	00.11.57	492	00.06.01	522	00.00.72	552	00.03.11	581	00.14.24	611	00.08.23
463	00.15.48	493	00.00.25	523	00.08.14	553	00.02.30	582	00.00.09	612	00.13.27
464	00.00.60	494	00.08.08	524	00.00.42	554	00.00.92	583	00.02.34	613	00.04.06
465	00.02.59	495	00.06.33	525	00.00.40	555	00.04.88	584	00.03.63	614	00.00.86
466	00.02.90	496	00.00.84	526	00.06.52	556	00.00.92	585	00.04.58	615	00.02.59
467	00.05.44	497	00.00.40	527	00.03.01	557	00.00.37	586	00.01.60	616	00.64.73
468	00.06.16	498	00.01.16	528	00.01.00	558	00.07.60	587	00.01.06	617	00.29.87
469	00.10.19	499	00.03.63	529	00.00.14	559	00.04.46	588	00.02.12	618	00.05.78
470	00.00.98	500	00.01.74	530	00.01.93	560	00.08.10	589	00.01.38	619	00.13.42
471	00.01.43	501	00.11.62	531	00.00.75	561	00.02.68	590	00.00.72	620	00.01.14
472	00.01.47	502	00.05.12	532	00.00.68	562	00.09.20	591	00.21.57	621	00.02.66
473	00.09.55	503	00.01.02	533	00.51.21	563	00.06.52	592	00.02.46	622	00.01.61
474	00.09.09	504	00.02.11	534	00.02.34	564	00.00.45	593	00.01.58	623	00.52.56
475	00.02.07	505	00.09.01	535	00.09.40	565	00.13.21	594	00.02.32	624	00.06.29
476	00.02.02	506	00.01.68	536	00.08.00	566	00.16.97	595	00.02.31	625	00.01.14
477	00.03.12	507	00.01.97	537	00.08.78	567	00.05.25	596	00.00.46	626	00.19.97
478	00.01.54	508	00.00.90	538	00.02.25	567/1	00.03.05	597	00.00.44	627	00.00.27
479	00.05.46	509	00.19.19	539	00.05.90	568	00.05.10	598	00.00.33	628	00.00.42
480	00.02.86	510	00.06.00	540	00.00.76	569	00.01.54	599	00.11.27	629	00.00.32
481	00.00.60	511	00.01.00	541	00.00.68	570	00.00.66	600	00.03.77	630	00.00.30
482	00.00.94	512	00.01.82	542	00.00.64	571	00.01.70	601	00.02.46	631	00.44.78
483	00.01.06	513	00.00.20	543	00.00.67	572	00.02.65	602	00.02.08	632	00.00.90
484	00.03.53	514	00.03.23	544	00.01.03	573	00.03.38	603	00.00.50	633	00.01.68
485	00.00.26	515	00.00.67	545	00.03.71	574	00.02.77	604	00.01.38	634	00.02.43
486	00.00.84	516	00.00.81	546	00.00.54	575	00.00.81	605	00.01.77	635	00.01.88

487	00.00.38	517	00.26.15	547	00.00.90	576	00.03.62	606	00.16.18	636	00.04.46
488	00.00.58	518	00.02.50	548	00.00.71	577	00.00.54	607	00.00.12	637	00.06.85
489	00.00.62	519	00.00.66	549	00.02.50	578	00.36.47	608	00.00.58	638	00.03.70

Khasra		Khasra		Khsara		Khasra		Khasra		Khasra	
No.	Area	Nos.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area
639	00.01.86	667	00.01.53	697	00.07.41	727	00.17.62	757	00.00.27	787	00.02.50
640	00.00.14	668	00.07.29	698	00.02.28	728	00.03.32	758	00.00.25	788	00.02.79
641	00.05.37	669	00.01.62	699	00.00.88	729	00.01.33	759	00.00.28	789	00.00.90
642	00.00.63	670	00.04.66	700	00.06.24	730	00.08.65	760	00.01.85	790	00.24.34
643	00.00.93	671	00.05.94	701	00.01.83	731	00.00.36	761	00.10.25	791	00.02.18
644	00.01.80	672	00.18.50	702	00.05.17	732	00.04.86	762	00.07.45	792	00.03.24
645	00.12.71	673	00.03.14	703	00.01.74	733	00.38.75	763	00.22.57	793	00.04.47
646	00.01.85	674	00.03.22	704	00.00.40	734	00.00.68	764	00.06.23	794	00.00.72
647	00.09.22	675	00.04.10	705	00.00.45	735	00.42.84	765	00.09.69	795	00.06.29
647/1	00.04.19	676	00.03.13	706	00.00.56	736	00.12.11	766	00.01.91	796	00.10.47
648	00.09.20	677	00.01.20	707	00.00.48	737	00.13.87	767	00.00.50	797	00.01.70
649	00.00.32	678	00.00.54	708	00.00.98	738	00.03.00	768	00.00.76	798	00.00.20
650	00.01.16	679	00.00.89	709	00.05.47	739	00.02.32	769	00.00.28	799	00.01.29
651	00.03.50	680	00.05.11	710	00.00.28	740	00.01.25	770	00.04.14	800	00.01.27
652	00.17.91	681	00.00.62	711	00.00.12	741	00.05.60	771	00.04.81	801	00.08.81
653	00.00.96	682	00.03.53	712	00.00.28	742	00.02.73	772	00.02.49	802	00.05.12
654	00.00.49	683	00.00.33	713	00.00.18	743	00.08.09	773	00.04.31	803	00.01.22
655	00.04.91	684	00.00.52	714	00.00.08	744	00.03.41	774	00.01.19	804	00.05.04
656	00.04.34	685	00.05.41	715	00.02.03	745	00.02.40	775	00.09.96	805	00.11.07
657	00.02.40	686	00.00.81	716	00.00.30	746	00.00.49	776	00.02.30	806	00.02.22
658	00.01.92	687	00.01.52	717	00.02.15	747	00.01.20	777	00.01.61	807	00.01.27
659	00.00.24	688	00.00.51	718	00.03.12	748	00.01.05	778	00.02.00	808	00.05.06
659/1	00.00.24	689	00.01.64	719	00.00.68	749	00.06.61	779	00.01.37	809	00.01.17
660	00.00.18	690	00.03.89	720	00.08.44	750	00.04.39	780	00.01.31	810	00.01.63
661	00.01.34	691	00.02.42	721	00.05.42	751	00.11.51	781	00.08.96	811	00.00.85
662	00.02.31	692	00.01.20	722	00.00.63	752	00.01.07	782	00.04.69	812	00.17.43
663	00.01.68	693	00.00.60	723	00.00.40	753	00.00.22	783	00.09.72	813	00.00.06
664	00.02.01	694	00.01.80	724	00.04.68	754	00.00.30	784	00.00.81	814	00.03.08
665	00.02.53	695	00.00.20	725	00.05.42	755	00.00.82	785	00.06.46	815	00.00.99
666	00.01.01	696	00.00.26	726	00.02.39	756	00.00.21	786	00.01.25	816	00.00.24

Khasra		Khasra		Khsara		Khasra		Khasra			
No.	Area	Nos.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area		
817	00.00.95	847	00.36.66	894	00.80.77	999	00.00.63	1027	00.15.87		
818	00.04.36	848	00.01.27	895	00.00.68	1000	01.46.84	1028	00.25.01		
819	00.00.69	849	00.05.88	972	00.76.09	1001	00.02.54	1029	00.08.77		
820	00.00.52	850	00.02.73	973	00.09.93	1002	02.60.52	1030	00.05.04		
821	00.18.50	851	00.18.47	974	00.01.71	1002/1	01.91.10	1031	00.24.65		
822	00.09.83	852	00.06.66	975	00.03.46	1003	03.44.32	1032	00.15.16		
823	00.15.49	853	00.01.28	976	00.05.57	1004	00.22.59	1034	00.04.51		
824	00.31.60	854	00.19.53	977	00.02.88	1005	00.36.36	1035	00.10.07		
825	00.17.00	855	00.00.48	978	00.00.82	1006	00.95.41	1036	00.16.39		

826	00.11.33	856	00.01.16	979	00.04.23	1007	00.00.16	1037	01.22.85		
827	00.16.63	857	00.00.24	980	00.00.54	1008	00.15.85	1038	00.06.82		
828	00.10.18	858	00.01.15	981	00.01.48	1009	00.10.72	1039	00.10.86		
829	00.00.74	859	00.02.72	982	00.05.08	1010	00.02.02	1040	00.02.86		
830	00.05.09	860	00.01.50	983	00.02.48	1011	00.05.01	1041	00.28.70		
831	00.08.48	861	00.01.50	983/1	00.01.68	1012	00.13.17	1042	00.00.48		
832	00.03.45	862	00.00.52	984	00.01.18	1013	00.01.26	1043	00.08.72		
833	00.06.15	863	00.00.60	985	00.00.66	1014	00.11.29	1044	00.02.70		
834	00.20.35	881	00.02.10	986	00.02.99	1014/1	00.04.10	1045	00.03.58		
835	00.05.67	882	00.02.15	987	00.02.85	1015	00.02.10	1046	00.02.10		
836	00.01.77	883	00.01.64	988	00.04.43	1016	00.01.56	1047	00.62.13		
837	00.01.01	884	00.04.73	989	00.01.31	1017	00.01.65	1049	00.04.33		
838	00.00.72	885	00.02.52	990	00.02.11	1018	00.05.79	1050	00.03.66		
839	00.23.05	886	00.15.82	991	00.05.34	1019	00.05.79	1051	00.00.85		
840	00.01.63	887	00.08.10	992	00.05.55	1020	00.11.22	1052	00.03.27		
841	00.05.43	888	00.02.72	993	00.01.69	1021	00.02.48	1053	00.03.14		
842	00.01.67	889	00.02.02	994	00.01.69	1022	00.09.04	1054	00.06.87		
843	00.02.69	890	00.12.18	995	00.02.52	1023	00.43.03	1072	03.00.30		
844	00.02.47	891	00.01.52	996	00.06.96	1024	00.02.00	1073	00.11.43		
845	00.00.75	892	00.00.48	997	00.03.63	1025	00.05.56	1074	00.05.00		
846	00.01.43	893	00.24.67	998	00.03.43	1026	00.04.62		Total Khasra Nos. and Area. 869 99-86-87		

ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बन्दना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

बन्दना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर/ अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13085, दिनांक 19-8-2014, सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन—पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि बन्दना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म दिनांक 10-4-1979 को बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है, परन्तु वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 10-4-1979 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बन्दना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-2-2015 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बीना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

बीना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर / अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13084, दिनांक 19-8-2014, सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन—पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि बीना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म दिनांक 24-3-1973 को बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है, परन्तु वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 24-3-1973 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बीना कुमारी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 4-2-2015 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

सीमा देवी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सीमा देवी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर / अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13086, दिनांक 19-8-2014, सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन—पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि सीमा देवी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म दिनांक 8-10-1976 को बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है,

परन्तु वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 8-10-1976 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सीमा देवी पुत्री प्रिथी चन्द, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म ग्राम पंचायत बजरोल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-2-2015 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Ashok Kumar aged 50 years s/o Shri Amar Chand, r/o Village Sahanwin, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
 2. Savitri Devi aged 40 years d/o Shri Mauji Ram, r/o Vill. & P.O. Thathwani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)
- . . Applicants.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001).

Ashok Kumar and Savitri Devi have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 7-1-2015 at Shani Dev Mandir, Lambloo, Tehsil & District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-2-2015. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-1-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Under Order 5, Rule 20, CPC**In the Court of Balwan Chand, HAS, Sub-Divisional Officer (Civil), Sujanpur,
District Hamirpur (H.P.) exercising the powers of Collector under the
HP Land Revenue Act**

Case No. : 25/14 (63/12)

Date of Institution : 15-12-2014 (18-6-2012)

Next date of hearing : 7-2-2015.

1. Paras Ram s/o Laskari Ram, 2. Vinod Kumar s/o Jagat Ram, 3. Rakesh Kumar s/o Jagat Ram, 4. Naresh Kumar s/o Jagat Ram, 5. Savitri Devi w/o Jagat Ram, 6. Taro Devi w/o Munshi Ram, all resident of Village Sawahal Tappa Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . *Appellants.*

Versus

1. Raghu Nath s/o Nanda, 2. Malkhan Devi w/o Raghu Nath, 3. Sarswati w/o Dharam Singh, 4. Ashok Kumar s/o Rangil Singh, 5. Kuldeep Kumar s/o Rangil Singh, 6. Munish Kumar s/o Pardip Kumar, 7. Rajo Devi w/o Rangil Singh, 8. Salo Devi m/o Rangil Singh, 9. (i) Manish Kumar s/o Pardip Kumar, (ii) Smt. Rajo Devi w/o Pardip Kumar, (iii) Smt. Salo Devi m/o Pardip Kumar, 10. Kamlesh Kumar s/o Rangil Singh, 11. Kamlesh Kumar s/o Johandu Ram of GPA R-1, 12. Sali Ram s/o Nanda, 13. Rup Singh s/o Nanda, 14. Neki Ram s/o Chuhru, 15. Dev Raj s/o Ram Saran, 16. Vijay s/o Ram Saran, 17. Naro w/o Ram Saran, 18. Mastu s/o Gopala, 19. Ashwani s/o Tejpal, 20. Karam Chand s/o Laskri, 21. Kuldeep s/o Raffo, 22. Rattan Chand s/o Nanda, all residents of Village Sujanpur, Tappa Bhaleth, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.), 23. Rakesh Kumar s/o Jagdish r/o Village Garsahar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.), 24. Julfi Ram s/o Khazana, 25. Brahmi Devi w/o Shakti Chand, 26. Desh Raj s/o Shakti Chand, 27. Jiwana d/o Shakti Chand, 28. Raksha d/o Shakti Chand, 29. Radha d/o Jagat Ram, 30. Ishar Dass s/o Chuhru, 31. Ashwani s/o Neki Ram, 32. Sushil s/o Neki Ram, 33. Nisha d/o Neki Ram, 34. Neeta d/o Neki Ram, 35. Kashmiri w/o Tejpal . . *Respondents.*

Appeal under section 14 of HP Land Revenue Act against the order of Assistant Collector 1st Grade Sujanpur passed in partition case No. 36/2010 on 30-6-2012 in case titled as Banwari Lal vs. Sanjeev Kumar etc.

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted respondents cannot be served upon in the ordinary manner of service. Hence this proclamation under Order 5 rule 20, CPC is hereby issued against them and they are directed to appear personally or through their counsel on 7-2-2015 at 10.00 A.M. failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and seal of the court on 13-1-2015.

Seal.

BALWANT CHAND ,
Collector,
Sub- Division Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 2/2015

तारीख मरजुआ : 16-1-2015

तारीख पेशी : 18-2-2015

श्री भूरी सिंह पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री भूरी सिंह पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भूरी सिंह है जो कि प्रार्थी के ग्राम पंचायत अभिलेख व आधार कार्ड में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सिमस में मातवर सिंह गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल सिमस में दुरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल सिमस में दुरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख सिमस में मातवर सिंह के स्थान पर भूरी सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-2-2015 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4/2015

तारीख मरजुआ : 16-1-2015

तारीख पेशी : 18-2-2015

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने दादा के

नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के दादा का वास्तविक नाम परस राम है जो कि प्रार्थी के पिता के सेना सर्विस अभिलेख व ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में पलस राम गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने दादा के नाम की राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में दुरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में दुरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के दादा के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल उटपुर में पलस राम के स्थान पर परस राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन दिनांक 18-2-2015 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 2/2015

तारीख मरजुआ : 16-1-2015

तारीख पेशी : 18-2-2015

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव जलाड, डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव जलाड, डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के अर्न्तगत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 11-11-1991 है जो कि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख में व ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू के जन्म अभिलेख में तिथि 11-11-1991 दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत अभिलेख पीहड बैहढलू के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 11-11-1991 ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन दिनांक 18-2-2015 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 3/2015

तारीख मरजुआ : 16-1-2015

तारीख पेशी : 18-2-2015

श्री बुद्धि सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी गांव चकराहण, डाकघर खददर, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री बुद्धि सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी गांव चकराहण, डाकघर खददर, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता जी का वास्तविक नाम सूरत सिंह है जो कि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख, आधार कार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी के पिता जी का नाम राजस्व अभिलेख महाल चकराहण में शुरु गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने पिता जी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चकराहण में दुरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल चकराहण में दुरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता जी के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल चकराहण में शुरु के स्थान पर सूरत सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-2-2015 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री दलीप सिंह पुत्र सूरजन सिंह, निवासी अप्पर चोलंगढ, डाकघर चोलंगढ, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थी श्री दलीप सिंह पुत्र सूरजन सिंह, निवासी अप्पर चोलंगढ ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम दलीप सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चोलंगढ उपरला में दलीप चन्द लिखा गया है जो गलत है। अब प्रार्थी ने उसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 28-2-2015 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

रूमा पत्नी श्री जगदीश चन्द, निवासी खनौड, डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराए दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी रूमा पत्नी श्री जगदीश चन्द, निवासी खनौड, डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति का सही नाम जगदीश चन्द है। परन्तु कागजात माल महाल खनौड में प्रार्थिन के पति का नाम जगर नाथ गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, शपथी पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वंसाखी राम, निवासी प्रौण, डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराए दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वंसाखी राम, निवासी प्रौण, डा0 स्योह, उप—तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम राजेन्द्र कुमार है। परन्तु कागजात माल महाल प्रौण में उसका नाम गुड़डो गलत नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, शपथी पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28—2—2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना—पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9—1—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

दिवान चन्द पुत्र श्री संगारु राम, निवासी मोरला, डा0 ब्रांग, उप—तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराए दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी दिवान चन्द पुत्र श्री संगारु राम, निवासी मोरला, डा0 ब्रांग, उप—तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम दिवान चन्द है। परन्तु कागजात माल महाल मोरला में उसका नाम दवाना गलत नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, शपथी पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28—2—2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना—पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9—1—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the court of Shri G.C. Negi, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(Urban), District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Shri Bhupinder Singh, aged about 57 years s/o Shri Sardar Mohan Singh, r/o 82/2, Cart Road, Moti Masjid, Shimla, Himachal Pradesh.
 2. Smt. Devinder Kaur, aged about 51 years d/o Late Shri Inderjeet Singh, r/o 97, North Vijay Nagar Colony, Agra (U.P.)
- ... Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Bhupinder Singh and Smt. Devinder Kaur have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4th December, 1986 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing with three weeks from the publication of this proclamation. Objection received after three weeks will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23rd January, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

G. C. NEGI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि० प्र०)

श्री धन्नु राम

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धन्नु राम पुत्र श्री पोहलो राम, निवासी पंजावर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी माता अक्की उपनाम रूकमा की मृत्यु दिनांक 10-12-1990 को गांव पंजावर में हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

श्री राम पाल

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम पाल पुत्र श्री राम नाथ, गांव टक्का, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पिता राम नाथ की मृत्यु गांव टक्का में दिनांक 1-3-1991 को में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालनत हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

श्री अश्वनी कुमार

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री चमन लाल, निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री विशाली का जन्म गांव सुनेहरा में दिनांक 8-7-2006 को हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म का पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालनत हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी अप्पर अरनियाला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी पुत्री दर्शना देवी का जन्म गांव अप्पर अरनियाला में दिनांक 30-6-1980 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म का पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालनत हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

श्रीमती सुनीता देवी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री देस राज, निवासी डन्गोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पति देस राज की मृत्यु गांव डन्गोली में दिनांक 27-2-1995 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालनत हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।